

B.A Part-2 Psy. Subsidiary Paper- Abnormal Psychology
Topic- Different views about Abnormality. Study
material Dr. Prabha Shree (Guest Faculty, Deptt of
Psychology, Vaishali Mahila College Hajipur)

असामान्य व्यवहार का वर्गीकरण

(Classification of Abnormal Behavior)

असामान्य व्यवहार का उचित एवं सर्वमान्य वर्गीकरण करना बहुत ही जटिल काम है परंतु फिर भी कई विद्वानों ने इसके वर्गीकरण किये हैं, कैमरान एवं ब्राउन द्वारा किया गया वर्गीकरण इस प्रकार है:-

कैमरान का वर्गीकरण- यदि हमें असामान्य व्यवहार के वर्गीकरण को समझना है तो इसके लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले

हम कैमरान द्वारा दी गई वर्गीकरण की विषय-वस्तु को जान लें। कैमरान ने असामान्य व्यवहार के संबंध में कहा है कि “असामान्य विज्ञान बहुआयामी सातत्य है जिसे हम समझने के लिए समूह में विभाजित करते हैं।” असामान्य मनोविज्ञान को कैमरान ने तीन मुख्य वर्गों में बांटा जिसका स्पष्टीकरण निम्नवत् है-

1. **मनःस्ताप (Neuroses)**- इस वर्ग के अंतर्गत निम्नलिखित मानसिक रोग आते हैं-

- चिंता प्रतिक्रियाएं (Anxiety reactions)

- रूपांतरित प्रतिक्रियाएं (Conversion reaction)
- भय प्रतिक्रियाएं (Phobic reactions)
- मनःस्ताप विषाद प्रतिक्रियाएं (Neurotic Depressive reactions)
- मनोविच्छेदी प्रतिक्रियाएं (Dissociative reactions)
- मनोग्रस्तता-बाध्यता प्रतिक्रियाएं (Obsessive compulsive reactions)

2. **मनोविक्षिप्तता (Psychoses)**- इस वर्ग में निम्नलिखित मानसिक रोग सम्मिलित किए जाते हैं-

- संभ्राति प्रतिक्रियाएं (Paranoid reactions)
 - मनोविदलता संबंधी प्रतिक्रियाएं (Schizophrenia reactions)
 - मनोविक्षिप्त विषाद प्रतिक्रियाएं (Psychotic Depressive Reactions)
 - प्रत्यावर्तनकालीन मनोविक्षिप्त प्रतिक्रियाएं (Involution Psychotic Reactions)
 - उत्साह-विषाद चक्र (Manic depressive reactions)
3. कुछ अन्य विकृतियां (Other Major Disorders)- इस वर्ग में कुछ

निम्नलिखित मानसिक असा मान्यताएं आती हैं-

- व्यक्तित्व विकृतियां (Personality disorders)
- मनोदैहिक विकृतियां (Psychosomatic disorders)
- चारित्रिक विकृतियां (Character disorders)

ब्राउन का वर्गीकरण (Brown's classification)-

ब्राउन ने असामान्य व्यवहार के निम्न वर्गीकरण स्पष्ट किये-

1. चरित्र विकार (Character Disorder)
2. आंगिक मनोविक्षिप्ता (Organic Psychoses)

3. मनःस्ताप (Neuroses)

4. कामुकता संबंधी असमानता

(Abnormalities of Sexual Behaviours)

5. प्रकार्यात्मक मनोविक्षिप्ता (Functional Psychoses)